

रोल नं.
Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 15
No. of printed pages : 15

132

432 (IIW)

2025

लेखाशास्त्र (सैद्धान्तिक)
ACCOUNTANCY (THEORY)

समय : 3 घण्टे]
Time : 3 Hours]

[पूर्णांक : 80
[Max. Marks : 80

निर्देश : (i) यह प्रश्न-पत्र तीन भागों में विभक्त है : 'क', 'ख' और 'ग'।

Directions : This question paper is divided into three parts : 'A', 'B' and 'C'.

(ii) भाग 'क' सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है।

Part 'A' is **compulsory** for all candidates.

(iii) भाग 'ख' और 'ग' में से कोई एक भाग हल करना है।

Any one part from Parts 'B' and 'C' is to be attempted.

(iv) प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं।

Marks allotted to the questions are mentioned against them.

(v) प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िये तथा समुचित उत्तर दीजिए।

Read each question carefully and answer to the point.

(vi) प्रश्न संख्या 1 तथा 18 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के प्रत्येक खण्ड के उत्तर में चार विकल्प दिये गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तरपुस्तिका में लिखिए।

Question No. 1 & 18 are multiple choice questions. Four options are given in answer of each part of these questions. Write correct option in your answer book.

(vii) इस प्रश्न-पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है तथापि कतिपय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर दीजिए।

There is no overall choice in this question paper, however, an internal choice has been provided in few questions. Attempt only one of the given choices in such questions.

भाग - 'क' (लेखाशास्त्र)

Part-'A' (Accountancy)

1. (क) एक साझेदारी फर्म में अ, ब साझेदार हैं, जिनकी पूँजी क्रमशः ₹ 20,000, ₹ 30,000 है। फर्म का वर्ष के अन्त में लाभ ₹ 10,000 है। साझेदारी संलेख के अभाव में 'अ' को लाभ का कितना अंश प्राप्त होगा? 1

- | | |
|---------------|---------------|
| (i) ₹ 4,000 | (ii) ₹ 6,000 |
| (iii) ₹ 5,000 | (iv) ₹ 10,000 |

A and B are partners in a partnership firm, their capital are ₹ 20,000, ₹ 30,000 respectively. Firm's profit is ₹ 10,000 in the end of year. In absence of partnership deed, how much share of profit will receive by A?

- | | |
|---------------|---------------|
| (i) ₹ 4,000 | (ii) ₹ 6,000 |
| (iii) ₹ 5,000 | (iv) ₹ 10,000 |

- (ख) नये साझेदार के प्रवेश के समय निम्न में से किस अनुपात की गणना की जाती है? 1

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| (i) लाभ-प्राप्ति अनुपात | (ii) त्याग अनुपात |
| (iii) पुराना अनुपात | (iv) इनमें से कोई नहीं |

Which of the following ratio is calculated at the time of admission of new partner?

- | | |
|-----------------|----------------------|
| (i) Gain Ratio | (ii) Sacrifice Ratio |
| (iii) Old Ratio | (iv) None of these |

- (ग) साझेदार की मृत्यु होने की दशा में निम्न में से कौन-सा खाता नहीं बनाया जाता है? 1

- | | |
|------------------|------------------------------|
| (i) रोकड़ खाता | (ii) साझेदारों के पूँजी खाते |
| (iii) वसूली खाता | (iv) पुनर्मूल्यांकन खाता |

In the case of death of partner, Which account was not made from the following?

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| (i) Cash Account | (ii) Partners' Capital Account |
| (iii) Realisation Account | (iv) Revaluation Account |

- (घ) अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन किस प्रकार का लाभ है? 1

- | | |
|----------------------|------------------------|
| (i) पूँजीगत प्राप्ति | (ii) सामान्य लाभ |
| (iii) असामान्य लाभ | (iv) इनमें से कोई नहीं |

Which type of profit is premium on issue of shares?

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| (i) Capital gain | (ii) Normal profit |
| (iii) Abnormal profit | (iv) None of these |

- (ङ) एक कम्पनी ने ₹ 10 प्रति अंश के 100 अंशों के एक अंशधारी के अंश ₹ 3 प्रति अंश की अन्तिम मांग राशि न चुकाए जाने पर जब्त कर लिए। कम्पनी द्वारा जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर अधिकतम छूट किस दर से दी जा सकती है? 1

- | | |
|---------------------|--------------------|
| (i) ₹ 10 प्रति अंश | (ii) ₹ 3 प्रति अंश |
| (iii) ₹ 5 प्रति अंश | (iv) ₹ 7 प्रति अंश |

A company forfeited shares of a shareholder of 100 shares of ₹ 10 per share for non payment of final call money of ₹ 3 per share. What is the maximum rate of discount can be given by company on reissue of forfeited shares?

- | | |
|---------------------|--------------------|
| (i) ₹ 10 per share | (ii) ₹ 3 per share |
| (iii) ₹ 5 per share | (iv) ₹ 7 per share |

(च) एक कम्पनी में ऋणपत्रधारी होते हैं:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| (i) कम्पनी के स्वामी | (ii) कम्पनी के ग्राहक |
| (iii) कम्पनी के लेनदार | (iv) इनमें से कोई नहीं |

Debentureholder in a company are:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| (i) Owner of the company | (ii) Customer of the company |
| (iii) Creditors of the company | (iv) None of these |

निर्देश : प्रश्न संख्या -1 के अगले दो खण्डों में, दो कथनों को **अभिकथन (A)** तथा **कारण (R)** के रूप में चिन्हित किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों (i), (ii), (iii) तथा (iv) में से चुनकर इनका सही उत्तर दीजिए।

Direction : In the next two parts of Question No.-1, there are two statements labelled as **Assertion (A)** and **Reason (R)**. From the following options (i), (ii), (iii) and (iv), select their correct answer.

- (i) A तथा R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
Both A and R are correct and R is correct explanation of A.
- (ii) A तथा R दोनों सही हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
Both A and R are correct but R is not the correct explanation of A.
- (iii) A सही है परन्तु R गलत है।
A is correct but R is incorrect.
- (iv) A तथा R दोनों गलत हैं।
Both A and R are incorrect.

(छ) **अभिकथन (A) :** साझेदारी फर्म का व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा या सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है।

कारण (R) : साझेदारों के मध्य यह सम्बन्ध पारस्परिक एजेंसी का है।

Assertion (A) : The business of a partnership concern may be carried on by all the partners or any of them acting for all.

Reason (R) : This relation between partners is mutual agency.

(ज) **अभिकथन (A) :** साझेदारी फर्म में नये साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है जब सभी साझेदार इसके लिए सहमत हों।

कारण (R) : नये साझेदार के प्रवेश पर साझेदारी फर्म के दायित्व एवं परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

Assertion (A) : The new partner may be admitted when the existing partners agree for it.

Reason (R) : Assets and Liabilities of partnership firm are revaluated on admission of new partner.

नोट : प्रश्न संख्या 2 तथा 3 में दिये गए कथनों के सम्मुख 'सत्य' अथवा 'असत्य' अंकित कर उन्हें अपनी उत्तरपुस्तिका में लिखिए।

Note : In Question No. 2 & 3, mark '**True**' or '**False**' against the given statements and write them in your answer book.

2. एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को फर्म के संचय व अवितरित लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। 1
A retiring partner is not entitled to have a share in the reserves and undistributed profits.
3. कम्पनी द्वारा अंशों को ऋणपत्रों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। 1
Shares can not be converted into debentures by company.
4. जब कम्पनी द्वारा अपने अंशों को क्रय किया जाता है तो यह क्या कहलाता है? 1
What is called when company purchased its own shares?
5. जब कोई अंशधारी देय तिथि पर मांग की राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसे क्या कहा जाता है? 1
What is it called when a shareholder fails to pay the call money on the due date?
6. विनय एवं अजय 5:3 के अनुपात में लाभ-हानि विभाजन करते हुए साझेदार हैं। वे नये साझेदार गोविन्द को 3/10 लाभ के हिस्से के लिए साझेदारी में शामिल करते हैं। जिसमें से वह 2/10 विनय से 1/10 अजय से प्राप्त करेगा। नये लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। 2
Vinay and Ajay are partners sharing profit-loss in the ratio of 5:3. They admit a new partner Govind in the firm for 3/10 share of profit, which he acquires 2/10 from Vinay and 1/10 from Ajay. Calculate new profit sharing ratio.
7. अमित और विनोद एक साझेदारी फर्म में साझेदार हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में निम्नलिखित दावों की वैधता बताइये: 2
(i) विनोद उनके पूंजी के अनुपात में लाभ विभाजन का दावा करता है।
(ii) अमित ₹ 10,000 प्रति माह वेतन का दावा करता है क्योंकि वह एक सक्रिय साझेदार है।
Amit and Vinod are partners in a partnership firm. State the validity of following claims in absence of partnership deed.
(i) Vinod claims for distribution of profit in their capital Ratio.
(ii) Amit claims for salary of ₹ 10,000 per month because he is a active partner.
8. समता अंश व पूर्वाधिकार अंश में कोई दो अन्तर लिखिए। 2
Write any two differences between equity shares and preference shares.
9. निम्नलिखित का अर्थ लिखिए: 1+1=2
(क) रक्षित ऋणपत्र
(ख) परिवर्तनीय ऋणपत्र
Write the meaning of the following:
(a) Secured debentures
(b) Convertible debentures
10. कविता और पायल एक साझेदारी फर्म में 2:1 के अनुपात में लाभ-हानि विभाजन करते हुए साझेदार हैं। वे भावना को भविष्य के लाभों में 1/3 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। वे भावना को लाभ में ₹ 27,000 की गारण्टी देते हैं। भावना को प्राप्त होने वाले लाभ में कमी होने पर वे इस कमी को अपने लाभ विभाजन अनुपात में वहन करेंगे। फर्म का वर्ष 2020 का लाभ ₹ 72,000 था। साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन दर्शाने हेतु लाभ व हानि नियोजन खाता बनाइये। 4
Kavita and Payal are partners in a partnership firm sharing profit-loss in the ratio

of 2:1. They admitted Bhawana in partnership for 1/3 share in future profits. They give guarantee in profit to Bhawana ₹ 27,000. If there is deficiency in the profit received by Bhawana, they will bear this deficiency in their profit sharing ratio. Firm's profit for year 2020 was ₹ 72,000. Prepare Profit & loss Appropriation Account to show the distribution of profit among partners.

11. P, Q और R एक साझेदारी फर्म में 3:2:1 के अनुपात में लाभ-हानि विभाजन करते हुए साझेदार हैं। अंतिम खाते बन जाने के बाद ज्ञात हुआ कि आहरण पर ब्याज और P के ₹1,000 वेतन को गणना में नहीं लाया गया। साझेदारों का आहरण पर ब्याज क्रमशः ₹ 2,000; ₹ 3,000 व ₹ 2,000 था। समायोजन हेतु आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए तथा कार्यात्मक टिप्पणी भी स्पष्टता से दर्शाइए। 4

P, Q and R are partners in a partnership firm sharing profit-loss in the ratio of 3:2:1. After the final accounts have been prepared, it was found that interest on drawings and P's salary ₹ 1,000 was not taken into calculation. The interest on drawings of partners were ₹ 2,000; ₹ 3,000 and ₹ 2,000 respectively. Make necessary journal entry for adjustment and show working notes clearly.

अथवा/OR

साझेदारी फर्म का विघटन किन-किन परिस्थितियों में हो सकता है? वर्णन कीजिए।

Under what circumstances a partnership firm can be dissolved? Describe it.

12. एक संयुक्त पूंजी कम्पनी ने ₹ 10 प्रति अंश वाले 10,000 समता अंश निर्गमित किये। इन अंशों पर ₹ 3 आवेदन पर, ₹ 5 आवंटन पर तथा ₹ 2 याचना पर धनराशि देय थी। सभी अंश क्रय कर लिए गए तथा राशियां यथाविधि प्राप्त हो गयीं। एक अंशधारी जिसके पास 200 अंश थे याचना की राशि का भुगतान नहीं कर सका। कम्पनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। 4

A joint stock company issued 10,000 equity shares of ₹ 10 per share. The amount on these shares was payable as ₹ 3 on application, ₹ 5 on Allotment and ₹ 2 on call. All the shares were subscribed and all the amount were duly received. A shareholder who had 200 shares could not pay the call money.

Pass the necessary journal entries in the books of company.

13. (क) स्टार लिमिटेड ने ₹ 15,00,000 का प्लांट स्काई लिमिटेड से खरीदा। कम्पनी ने क्रय के प्रतिफल के रूप में ₹ 2,50,000 नकद तथा शेष राशि के लिए ₹ 100 वाले 6% ऋणपत्र ₹ 25 प्रीमियम पर निर्गमित किये। 2

(ख) X लिमिटेड ने ₹ 95,000 की मशीन Y लिमिटेड से खरीदी। कम्पनी ने क्रय के प्रतिफल के रूप में ₹ 100 वाले 6% ऋणपत्र ₹ 5 छूट पर निर्गमित किये। 2

उपरोक्त लेन-देनों की जर्नल प्रविष्टियां कीजिए।

(a) Star limited purchased a plant of ₹ 15,00,000 from Sky limited. Company paid ₹ 2,50,000 in cash and issued 6% debentures of 100 each at premium ₹ 25 each for purchase consideration.

(b) X Limited purchased a machinery of ₹ 95,000 from Y Limited. Y Limited issued 6% debentures of ₹ 100 each at discount of ₹ 5 for purchase consideration.

Give journal entries for above transactions.

अथवा/OR

कम्पनी की किन्हीं चार विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 4

Explain any four features of company.

14. एक साझेदारी फर्म में X और Y 2:3 के अनुपात में लाभ-हानि विभाजित करते हुए साझेदार थे। 31 दिसम्बर 2022 को फर्म का आर्थिक चिह्न निम्न प्रकार था:

दायित्व	धनराशि ₹	सम्पत्तियाँ	धनराशि ₹
लेनदार	5,000	रोकड़	6,000
अदत्त व्यय	2,000	रहतिया	5,000
सामान्य संचय	4,000	देनदार	10,000
पूँजी खाते:		भूमि व भवन	70,000
X 40,000		फर्नीचर	20,000
Y 60,000	1,00,000		
	1,11,000		1,11,000

X और Y ने फर्म के विघटन का निर्णय किया। निम्न सूचनाओं के आधार पर फर्म की पुस्तकें बन्द कीजिए:

- भूमि व भवन से ₹ 80,000; फर्नीचर से ₹ 18,000; देनदारों से ₹ 8,000 और रहतिया से ₹ 7,000 वसूल हुए।
- लेनदारों के भुगतान का दायित्व X ने लिया। अदत्त व्ययों का पूर्ण भुगतान किया गया।
- समापन के व्यय ₹ 1,000 हुए।

साझेदारी फर्म का वसूली खाता तथा साझेदारों के पूँजी खाते तैयार कीजिए।

6

X and Y were partners in a partnership firm sharing profit loss in the ratio of 2:3
Balance sheet of firm on 31 december 2022 as follows:

Liabilities	Amount ₹	Assets	Amount ₹
Creditors	5,000	Cash	6,000
Outstanding Expenses	2,000	Inventories	5,000
General Reserve	4,000	Debtors	10,000
Capital A/c's:		Land & Buildings	70,000
X 40,000		Furniture	20,000
Y 60,000	1,00,000		
	1,11,000		1,11,000

X and Y decided to dissolve the firm. On the basis of following information close the books of the firm:

- ₹ 80,000 from land and building; ₹ 18,000 from furniture; ₹ 8,000 from debtors and ₹ 7,000 from inventories were realised.
- X took liability to pay creditors. Outstanding expenses were paid in full.
- Realisation expenses were ₹ 1,000.

Prepare Realisation Account, Partners capital Account of the firm.

15. ABC लिमिटेड कम्पनी ने 40,000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किये, जो निम्नप्रकार देय हैं:

आवेदन पर	₹ 2 प्रति अंश
आवंटन पर	₹ 5 प्रति अंश
प्रथम व अन्तिम याचना पर	₹ 3 प्रति अंश

44,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 4,000 अंशों के आवेदनों को निरस्त कर दिया गया तथा आवेदन की राशि वापस कर दी गयी। एक अंशधारी जिसके पास 1,000 अंश थे, याचना की राशि का भुगतान करने में असफल रहा। उसके अंश कम्पनी ने जब्त कर लिए। कम्पनी ने जब्त किये गये अंशों को ₹ 8 प्रति अंश पर पुनः निर्गमित किया।

कम्पनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए।

6

ABC Limited company invited application on 40,000 shares. Which are payable as follows:

On application	₹ 2 per share
On allotment	₹ 5 per share
On first and final call	₹ 3 per share

Application received for 44,000 shares. Application of 4,000 share were rejected and application money was refunded. A shareholder who has 1,000 shares, failed to pay call money. His shares were forfeited by company. Company reissued forfeited shares on ₹ 8 per share.

Pass necessary journal entries in the books of company.

अथवा/OR

ऋणपत्रों से आप क्या समझते हैं? ऋणपत्र, अंशों से किस प्रकार भिन्न हैं? समझाइये।

What do you understand by debentures? How are debentures different from shares? Explain.

16. अ और ब एक फर्म में साझेदार थे तथा 3:2 के अनुपात में लाभ व हानि का विभाजन करते थे। 31 दिसम्बर 2022 को उनका आर्थिक चिह्न निम्न प्रकार था:

दायित्व	धनराशि (₹)	सम्पत्तियां	धनराशि (₹)
पूंजी खाते		संयंत्र एवं मशीनरी	50,000
अ 30,000		रहतिया	20,000
ब 25,000	55,000	देनदार 20,000	
लेनदार	25,000	घटाया-संदिग्ध	
देय विपत्र	20,000	ऋणों के लिए प्रावधान 5,000	15,000
सामान्य संचय	5,000	रोकड़	20,000
	1,05,000		1,05,000

1 जनवरी 2023 को उन्होंने स को लाभ में 1/4 भाग के लिए नये साझेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर फर्म में प्रवेश देने का निर्णय किया।

- स ₹ 20,000 पूंजी के रूप में तथा ₹ 10,000 ख्याति के हिस्से के रूप में लाएगा।
- संयंत्र व मशीनरी का ₹ 55,000 तथा रहतिये का ₹ 18,000 पर मूल्यांकन किया गया।
- संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को ₹ 3,750 किया जाएगा।

उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर पुनर्मूल्यांकन खाता तथा साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए।

A and B were partners in a firm and sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Their Balance sheet as on 31 December 2022 was as follows:

Liabilities	Amount (₹)	Assets	Amount (₹)
Capital A/c's		Plant & Machinery	50,000
A 30,000		Inventory	20,000
B 25,000	55,000	Debtors 20,000	
Creditors	25,000	Less: Provision	
Bills Payables	20,000	for doubtful debts 5,000	15,000
General Reserve	5,000	Cash	20,000
	1,05,000		1,05,000

On 1st January 2023 they decided to admit C as a new partner for 1/4th share in the profits of the firm on the following terms:

- C brought ₹ 20,000 as his capital and ₹ 10,000 as his share of goodwill.
- Plant & Machinery was valued at ₹ 55,000 and inventory at ₹ 18,000.
- Provision for doubtful debts will be at ₹ 3,750.

Prepare Revaluation Account and Partners' Capital Account on the basis of above information.

अथवा/OR

ललित, मोहन व नरेश एक फर्म में साझेदार थे तथा लाभ-हानि का विभाजन 5:3:2 के अनुपात में करते थे। 31 दिसम्बर 2022 को उनका आर्थिक चिह्न निम्न प्रकार था:

दायित्व	धनराशि (₹)	सम्पत्तियाँ	धनराशि (₹)
पूंजी खाते		भूमि व भवन	80,000
ललित 40,000		देनदार	20,000
मोहन 35,000		रहतिया	20,000
नरेश 30,000	1,05,000	रोकड़	15,000
सामान्य संचय	20,000		
लेनदार	10,000		
	1,35,000		1,35,000

31 दिसम्बर 2022 को नरेश निम्नलिखित शर्तों पर अवकाश ग्रहण करता है:

- भूमि व भवन का ₹ 85,000 पर, रहतिया का ₹ 18,000 पर मूल्यांकन किया गया।
- लेनदारों को पुस्तकीय मूल्य से ₹ 2,000 कम का भुगतान करना है।
- फर्म की ख्याति का मूल्यांकन ₹ 32,000 किया गया।

फर्म की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए।

Lalit, Mohan and Naresh were partners in a firm and sharing profit-loss in the ratio of 5:3:2. Their Balance sheet as on 31 December 2022 was as follows:

Liabilities	Amount (₹)	Assets	Amount (₹)
Capital A/c's		Land and Building	80,000
Lalit 40,000		Debtors	20,000
Mohan 35,000		Inventory	20,000
Naresh 30,000	1,05,000	Cash	15,000
General Reserve	20,000		
Creditors	10,000		
	1,35,000		1,35,000

Naresh took retirement on 31 december 2022 on following terms:

- Land and Building valued at ₹ 85,000; Inventory at ₹ 18,000.
- Creditors to be paid ₹ 2,000 less than the book value.
- Firm's goodwill was valued at ₹ 32,000.

Pass the necessary journal entries in the books of the firm.

17. स्टार फूड प्लाजा एक साझेदारी व्यवसाय है, जिसमें अमित और बृजेश 2:1 के अनुपात में लाभ-हानि बांटते हुए साझेदार हैं। व्यवसाय में अमित ने ₹ 1,00,000 तथा बृजेश ने ₹ 80,000 पूंजी का निवेश किया है। स्टार फूड प्लाजा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक रेस्टोरेण्ट है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ते यातायात को देखते हुए उनकी एक और रेस्टोरेण्ट खोलने की योजना है। जिसके लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। इसलिए वे अपने मित्र चमन को नये साझेदार के रूप में साझेदारी में प्रवेश देते हैं। चमन ₹ 90,000 पूंजी लाएगा। चमन भविष्य के लाभों में 1/5 हिस्सा लेगा, जिसको वह अमित व बृजेश से बराबर प्राप्त करेगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभों के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर किया जाएगा। पिछले तीन वर्षों के लाभ थे : I वर्ष ₹ 15,000; II वर्ष ₹ 20,000; III वर्ष ₹ 25,000 । चमन अपने हिस्से की ख्याति नकद लाया।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

- (i) अमित, बृजेश व चमन का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? 1
- (अ) 1:1:1 (ब) 17:7:6
- (स) 2:1:5 (द) 2:1:2
- (ii) अमित व बृजेश का त्याग अनुपात क्या होगा? 1
- (अ) 2:1 (ब) 2:1:5
- (स) 1:1 (द) 1:3
- (iii) फर्म की ख्याति में चमन के हिस्से की गणना कीजिए। 2
- (iv) चमन द्वारा लाए गये ख्याति के प्रीमियम की जर्नल प्रविष्टि कीजिए। 2

Star Food Plaza is a partnership business, in which Amit and Brijesh are partners in sharing profit-loss in the ratio of 2:1. Capital invested by Amit ₹ 1,00,000 and Brijesh ₹ 80,000, in the business. Star Food Plaza is a restaurant on national highway. In view of increasing traffic on national highway they plan to open another restaurant. Which will require additional capital, So they admit their friend Chaman as a new partner. Chaman will bring ₹ 90,000 as capital. Chaman will take 1/5th share in future profit, which he will get from Amit and Brijesh equally. Firm's goodwill will be valued on the basis of 2 years purchase of average profit of the last 3 years. Last 3 years profit were : Ist year ₹ 15,000; IInd year ₹ 20,000; IIIrd year ₹ 25,000. Chaman brings his share of goodwill in cash.

Give answer the following questions on the basis of above information.

- (i) What will be the new profit sharing ratio of Amit, Brijesh, and Chaman?
- (a) 1:1:1 (b) 17:7:6
- (c) 2:1:5 (d) 2:1:2
- (ii) What will be sacrificing ratio of Amit and Brijesh?
- (a) 2:1 (b) 2:1:5
- (c) 1:1 (d) 1:3
- (iii) Calculate Chaman's share in goodwill of the firm.
- (iv) Pass journal entries for premium of goodwill brought in by Chaman.

भाग - 'ख' (वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)
Part-'B' (Analysis of Financial Statements)

18. (क) निम्नलिखित में से कौन कम्पनी के वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं है? 1
- (i) लाभ-हानि विवरण (ii) रोकड़ प्रवाह विवरण
(iii) आर्थिक चिट्ठा (iv) रोकड़ खाता
- Which of the following does not include in financial statement of company?.
- (i) Statement of Profit and Loss (ii) Cash Flow Statement
(iii) Balance Sheet (iv) Cash Account
- (ख) निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ का बहिर्प्रवाह है? 1
- (i) अंशों के निर्गमन से रोकड़ प्राप्ति
(ii) स्थायी परिसम्पत्तियों का क्रय
(iii) देनदारों से प्राप्त भुगतान
(iv) निवेश पर प्राप्त ब्याज
- Which of the following is outflow of cash in Cash Flow Statement?
- (i) Cash received from issue of shares
(ii) Purchase of fixed assets
(iii) Payment received from debtors
(iv) Interest recieved from investment

नोट : प्रश्न संख्या 19 तथा 20 में दिये गए कथनों के सम्मुख 'सत्य' अथवा 'असत्य' अंकित कर उन्हें अपनी उत्तरपुस्तिका में लिखिए।

Note : In Question No. 19 & 20, mark 'True' or 'False' against the given statements and write them in your answer book.

19. कम्पनी के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उद्देश्य कम्पनी के द्वारा लिए गये ऋणों की भुगतान उदायगी क्षमता को मापना नहीं है। 1
- The objective of analysing the financial statements of a company is not the measure the company's ability to repay its debts.
20. रोकड़ प्रवाह विवरण में ऋणपत्रों का निर्गमन वित्तीय क्रियाओं के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। 1
- In cash flow statement, the issue of debentures is shown under the financing activities.
21. रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के कोई दो उद्देश्य लिखिए। 2
- Write any two objectives of preparing cash flow statement.
22. निम्नलिखित सूचना से 'प्रचालन क्रियाकलाप से रोकड़ प्रवाह' की गणना कीजिए: 4

विवरण	31-12-2022 ₹	31-12-2021 ₹
लेनदार	25,000	20,000
देनदार	30,000	26,000
रहतिया	40,000	46,000
अंश पूंजी	1,20,000	1,00,000
लाभ-हानि विवरण का शेष	40,000	30,000

अतिरिक्त समायोजनाएँ:

ख्याति का अपलेखन - ₹ 5,000

चालू वर्ष का हास- ₹ 12,000

सामान्य संचय में हस्तान्तरण- ₹ 3,000

Calculate the cash flow from operating activities from the following information:

Particulars	31-12-2022 ₹	31-12-2021 ₹
Creditors	25,000	20,000
Debtors	30,000	26,000
Inventories	40,000	46,000
Share Capital	1,20,000	1,00,000
Balance of Statement of Profit & Loss	40,000	30,000

Additional adjustments:

Goodwill written off-₹ 5,000

Depreciation of current year-₹ 12,000

Transfer in general reserve-₹ 3,000

23. कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार कम्पनी के स्थिति विवरण में निम्नलिखित मदों के मुख्य शीर्ष तथा उप-शीर्ष लिखिए।

4

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| (i) रहतिया | (ii) सामान्य संचय |
| (iii) दीर्घकालिक बैंक ऋण | (iv) ख्याति |

Write main heading and sub-heading of following items in Balance Sheet according to the schedule III of Companies Act 2013.

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| (i) Inventories | (ii) General Reserve |
| (iii) Long-term Bank Loan | (iv) Goodwill |

अथवा / OR

वित्तीय विवरणों का निम्नलिखित के लिए महत्व बताइए-

- | | |
|----------------|--------------|
| (i) निवेशक | (ii) सरकार |
| (iii) कर्मचारी | (iv) अंशधारक |

State the importance of financial statements to:

- | | |
|----------------|------------------|
| (i) Investors | (ii) Government |
| (iii) Employee | (iv) Shareholder |

24. एक कम्पनी के वित्तीय विवरण से प्राप्त सूचनाएँ निम्नवत हैं:

	₹
प्रचालन से आगम	1,50,000
प्रचालन से आगम की लागत	1,00,000
उधार विक्रय	50,000
चालू दायित्व	25,000
चालू सम्पत्तियाँ	40,000
रहतिया	10,000
समता अंश पूंजी	3,00,000
दीर्घकालिक ऋण	4,50,000
औसत देनदार	25,000

उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर निम्न लेखांकन अनुपातों की गणना कीजिए:

6

- (क) तरलता अनुपात
- (ख) सकल लाभ अनुपात
- (ग) प्राप्य या देनदार आवर्त अनुपात
- (घ) ऋण-समता अनुपात

Following are information obtained from the financial statements of a company:

	₹
Revenue from operation	1,50,000
Cost of revenue from operation	1,00,000
Credit sales	50,000
Current liabilities	25,000
Current assets	40,000
Inventories	10,000
Equity share capital	3,00,000
Long-term debt	4,50,000
Average debtors	25,000

Calculate the following ratios on the basis of above informations:

- (a) Liquidity ratio
- (b) Gross profit ratio
- (c) Receivable or Debtors turnover ratio
- (d) Debt-equity ratio

भाग - 'ग' (अभिकलित्र लेखांकन)

Part-'C' (Computerised Accounting)

18. (क) कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली का तात्पर्य है: 1

- (i) कम्प्यूटर के उपयोग से वित्तीय विवरणों को छापना
- (ii) कम्प्यूटर द्वारा लेखांकन लेन-देनों के प्रोसेसिंग से रिकार्ड व रिपोर्ट तैयार करना।
- (iii) लेखांकन से सम्बन्धित आंकड़ों की प्रोसेसिंग
- (iv) इनमें से कोई नहीं

Computer Accounting System refers to-

- (i) Printing of financial statements using computer
- (ii) Processing accounting transactions through computer and produce records and reports.
- (iii) Processing accounting related data
- (iv) None of these

(ख) एक्सेल में सक्रिय सेल का पता कहाँ पर प्रदर्शित होता है? 1

- (i) रो हैडिंग
- (ii) स्टेटस बार
- (iii) नेम बाक्स
- (iv) फार्मुला बार

Where is the address of active cell displays?

- (i) Row heading
- (ii) Status bar
- (iii) Name box
- (iv) Formula bar

नोट : प्रश्न संख्या 19 तथा 20 में दिये गए कथनों के सम्मुख 'सत्य' अथवा 'असत्य' अंकित कर उन्हें अपनी उत्तरपुस्तिका में लिखिए।

Note : In Question No. 19 & 20, mark 'True' or 'False' against the given statements and write them in your answer book.

19. पी एम टी फंक्शन का उपयोग ऋण पुनर्भुगतान सूची की गणना में होता है। 1

The function PMT is used to compute the loan repayment schedule.

20. ग्राफ आंकड़ों का एक सचित्र प्रदर्शन नहीं है। 1
Graph is not a pictorial representation of data.
21. ग्राफ या चार्ट के उपयोग से होने वाले कोई दो लाभ लिखिए। 2
Write any two advantages of using graphs or charts.
22. स्प्रेडशीट के उपयोग में आने वाली कोई चार त्रुटियाँ बताइये। 4
State any four errors in using spreadsheet.
23. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली में सुरक्षा सुविधा के रूप में 'पासवर्ड सुरक्षा' और 'डाटा ऑडिट' की व्याख्या करिए। 4
Explain 'Password Security' and 'Data Audit' as security features in Computerised Accounting System.

अथवा /OR

पीवोट टेबल क्या है? इसके क्या लाभ हैं?

What is Pivot table? What are its benefits?

24. स्प्रेडशीट के उपयोग से वेतन लेखांकन का वर्णन कीजिए। 6
Describe Payroll Accounting using spreadsheet.
